



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-Section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 153]

No. 153]

नई दिल्ली, शनिवार, अप्रैल 19, 1980/चैत्र 30, 1902

NEW DELHI, SATURDAY, APRIL 19, 1980/CHAITRA 30, 1902

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

वित्त मंत्रालय

(प्राधिकार्य विभाग)

प्रधिसूचना

नई दिल्ली, 19 अप्रैल, 1980

क्रा० प्रा० 264(अ).—संविधान प्रादेश : राष्ट्रपति द्वारा दिए गए निम्न-
लिखित प्रादेश को सामान्य जानकारी के लिए प्रकाशित किया जा रहा है।

प्रादेश

संविधान के अनुच्छेद 356 के खण्ड (1) के अन्तर्गत 17
फरवरी, 1980 को जारी की गई एक उद्घोषणा के द्वारा यह घोषित
किया गया है कि महाराष्ट्र राज्य के विधान मण्डल की शक्तियों का प्रयोग
संसद द्वारा अथवा संसद के प्राधिकार के अन्तर्गत किया जाएगा;

और चूंकि संसद ने उस राज्य की समेकित निधि में वित्तीय वर्ष
1980-81 के एक भाग के लिए सेवाओं के संबंध में व्यय करने का
प्राधिकार दे दिया है;

और चूंकि इस प्रकार से प्राधिकृत रकम को सेवाओं और प्रयोजन
अर्थात् "खायात्र पर पूंजी परव्यय" के संबंध में अर्पित पाया गया है;

और चूंकि लोक सभा का सत्र नहीं चल रहा है और जब तक संसद
व्यय की मंजूरी न दे दे तब तक के लिए उपर्युक्त राज्य की समेकित
निधि से और अधिक व्यय करने का प्राधिकार देना आवश्यक है;

इसलिए अब संविधान के अनुच्छेद 357 के खण्ड 1 के उप-खण्ड (ग)
के अन्वय में मैं, नीलम संजीव रेड्डी, भारत का राष्ट्रपति, एतद्वारा
प्राधिकार देता हूं कि मंजूरी मिलने तक इससे संलग्न अनुसूची के कालम
1 में निर्दिष्ट सेवा तथा प्रयोजन के संबंध में वित्तीय वर्ष 1980-81
के दौरान किए जाने वाले खर्च को पूरा करने के लिए महाराष्ट्र राज्य
की समेकित निधि में से अधिक से अधिक 60 करोड़ रुपए की रकम,
जो हमने संलग्न सूची के कालम 2 में विनिर्दिष्ट की गई है, खर्च की जाए।

अनुसूची

अधिक से अधिक रकम

स्वाकृति/विनियोग की संख्या और सेवा तथा प्रयोजन	महाराष्ट्र राज्य की समेकित निधि पर भारित व्यय	महाराष्ट्र राज्य की समेकित निधि से पूरा किया जाने वाला अन्य व्यय	जोड़
1	2		
	रु०	रु०	
190	पूंजी	—	60,00,00,000 60,00,00,000
खायात्र पर पूंजी परव्यय			

नीलम संजीव रेड्डी, राष्ट्रपति

[संख्या एफ० 2 (39)-वी० (एस०)/80]

अखिलेश चन्द्र तिवारी, संयुक्त सचिव (बजट)

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Economic Affairs)

NOTIFICATION

New Delhi, the 19th April, 1980.

S.O. 264(E).—The following Order made by the President is published for general information.

ORDER

Whereas by a proclamation issued on the 17th February, 1980, under clause (1) of article 356 of the Constitution, it has been declared that the powers of the Legislature of the State of Maharashtra shall be exercisable by or under the authority of Parliament;

And whereas Parliament has authorised expenditure from the Consolidated Fund of that State for the services for a part of the financial year 1980-81;

And whereas the amount so authorised is found to be insufficient in the case of the service and purpose, namely, Capital Outlay on Food;

And whereas the House of the People is not in Session and it is necessary to authorise further expenditure from the Consolidated Fund of that State pending the sanction of such expenditure by Parliament;

Now, therefore, in pursuance of sub-clause (c) of clause (1) of article 357 of the Constitution, I, Neelam Sanjiva Reddy, President of India, hereby authorise that, pending the sanction

by Parliament, expenditure of a sum not exceeding the sum of sixty crore rupees specified in column 2 of the Schedule annexed hereto, may be incurred from and out of the Consolidated Fund of the State of Maharashtra towards defraying the charges during the financial year 1980-81 in respect of the service and purpose specified in column 1 of the said Schedule.

SCHEDULE

No. of Vote/ Appropriation and service and purpose	Sum not exceeding		
	Expenditure charged on Consolidated Fund of the State of Maharashtra	Other expenditure to be met out of the Consolidated Fund of the State of Maharashtra	Total
1	2		
		Rs.	Rs.
190 Capital Capital Outlay on Food	—	60,00,00,000	60,00,00,000

NEELAM SANJIVA REDDY,
President

[F. No. 2(39)-B(S)/80]
A.C. TIWARI, Jt. Secy. (Budget)